



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 श्रावण 1945 (श10)  
(सं० पटना 628) पटना, वृहस्पतिवार, 27 जुलाई 2023

---

सं० पर्या०/वन-07/2021/528(ई०)—प०व०ज०प०  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

संकल्प

25 जुलाई 2023

**विषय:**—“बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-अभियंत्रण संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023” की स्वीकृति के संबंध में।

जल प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण एवं जल के गुणवत्ता को बनाये रखने संबंधी कृत्यों के निर्वहन हेतु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-4 के प्रावधानों के तहत बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् का गठन किया गया है। इस अधिनियम की धारा-12 (3) के तहत उक्त कार्यों के निष्पादन के लिए पर्षद् को ऐसे पदाधिकारियों एवं कर्मियों, जिनकी आवश्यकता पर्षद् को हो, को नियुक्त करने तथा नियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मियों (पर्षद् के सदस्य-सचिव को छोड़कर) की भर्ती, सेवा-शर्तों (वेतनमान सहित) को विनियमित करने हेतु विनियमावली बनाए जाने की शक्ति प्रदत्त है।

इसके तहत पर्षद् के कार्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु पर्यावरण अभियंत्रण के पद सृजित हैं। परन्तु पर्यावरण अभियंत्रण संवर्ग में नियुक्ति एवं नियुक्त कर्मियों के सेवार्थ के विनियमन हेतु पूर्व से कोई विनियमावली गठित नहीं है। विनियमावली नहीं रहने के कारण पर्षद् में पर्यावरण अभियंत्रण की नियुक्ति एवं नियुक्त पर्यावरण अभियंत्रणों को प्रोन्नति देने में कठिनाई होती है, जिसका प्रतिकूल प्रभाव पर्षद् के कार्यों पर पड़ता है। इसी परिदृश्य में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा “बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-अभियंत्रण संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023” तैयार की गयी है। अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत उक्त विनियमावली सरकार के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रभावी हो सकेगी। विनियमावली में पर्यावरण अभियंत्रण संवर्ग की संरचना एवं अन्य सेवा शर्त आदि विहित किये गये हैं।

उपरोक्त के आलोक में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के नियम-12 (3 ए.) के परन्तुक (बी.) के तहत "बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्-अभियंत्रण संवर्ग (नियुक्ति एवं सेवा) विनियमावली, 2023" पर राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत अनुमोदन प्रदान किया गया है, जिसे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा अधिसूचित किया जायेगा।

आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर दिया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
बन्दना प्रेयषी,  
सरकार के सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 628-571+200-डी0टी0पी0  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>